

**@shahjahanpurpol**

**प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 13.09.2020**

**थाना रोजा पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा,**

**भारी मात्रा में निर्मित एवं अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र व बनाने के उपकरण बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार।**

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये टाप-10 अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 13/09/20 को थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त रघुवीर को ग्राम अहमदनगर के रामसनेही पाल के गन्ने के खेत में लगे पाकड़ के पेड़ के पास प्रातः 07:30 बजे को अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री, निर्मित व अर्द्ध निर्मित शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना रोजा पर मु0अ0स0- 530/2020 धारा 5/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-**

1- रघुवीर पुत्र बाबूराम शर्मा निवासी ग्राम अहमदनगर थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर हाल निवासी लाल बाग चौराहे के पास रौसर कोठी थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर।

### **बरामदगी का विवरण :-**

1. एक तमंचा 315 बोर
2. एक बंदूक देशी 12 बोर
3. एक अधबनी देशी बन्दूक 12 बोर
4. एक अधबना तमंचा 315 बोर
5. एक खोखा कारतूस 315 बोर
6. एक खोखा कारतूस 12 बोर
7. शस्त्र बनाने के उपकरण

### **आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 156/96 धारा 5/25 आर्मस एक्ट थाना रोजा शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 225/12 धारा 5/25 आर्मस एक्ट थाना सेहरामऊ दक्षिणी शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0 156/13 धारा 5/25 आर्मस एक्ट थाना गढिया रंगीन शाहजहाँपुर।
4. मु0अ0सं0 66/92 धारा 147/148/149/ 302/201/307 भादवि0 थाना रोजा शाहजहाँपुर।
5. मु0अ0स0- 67/92 धारा 147/148/307 भादवि0 थाना रोजा शाहजहाँपुर।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. व. उ.नि. श्री दिलीप कुमार यादव थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 श्री नीरज कुमार सिंह थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 राजेश बाबू मिश्रा थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
4. का01019 रघुराज सिंह थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
5. का0 1912 चन्द्रेश सिंह थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
6. का0 913 महेश यादव थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।